



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 1—अक्टूबर 7, 2005 (आश्विन 9, 1927)
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 1—OCTOBER 7, 2005 (ASVINA 9, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION IV]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

(सरकारी और बैंक लेखा विभाग)

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई-400005, दिनांक 10 सितम्बर 2005

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ. (8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली, 1946 के नियम 18 के अनुसरण, जुलाई 2005 के समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, मुंबई 400 008 को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा सं.
1	2	3	4	5	6
भायखला, मुंबई सर्कल 9 % राहत पत्र-1987					
बी. सी. 9359 जी. पी. ए.	रु. 50,000/-	विशीनदास एस. वजीरानी (मृत) कमली व्ही. वजीरानी	13.02.1990	विशीनदास एस. वजीरानी (मृत) कमली व्ही. वजीरानी	06.25.60 10.06.2002
बी. सी. 9360 जी. पी. ए.	रु. 50,000/-	---वही---	---वही---	---वही---	---वही---
बी. सी. 9361 जी. पी. ए.	रु. 50,000/-	इंदू आर. वजीरानी कमली व्ही. वजीरानी	---वही---	इंदू आर. वजीरानी कमली व्ही. वजीरानी	---वही---
बी. सी. 9362 जी. पी. ए.	रु. 50,000/-	---वही---	---वही---	---वही---	---वही---
चेन्नै सर्कल 9% राहत पत्र-1999 (डीमट)					
एम. एस. एन. 002407	रु. 10,00,000/-	इलवरसि देवदास	नान-क्यूमुलेटिव	इलवरसि देवदास	02-30 जुलाई 2005

सूची "ख"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा सं.
1	2	3	4	5	6
चेन्नै सर्कल 10 % राहत पत्र-1995					
एम एस 5249 जी. पी. (संचयी)	रु. 6,00,000/-	जे. रेणुका	21.10.1998	जे. रेणुका	02 दिनांक 3.5.2005
9 % राहत पत्र-1999					
एम एस सी 000031 जी पी (संचयी)	रु. 50,000/-	जे. रेणुका	7.6.1999	जे. रेणुका	02 दिनांक 3.5.2005
एम एस सी 000032 जी पी (संचयी)	रु. 50,000/-	जे. रेणुका	7.6.1999	जे. रेणुका	02 दिनांक 3.5.2005
एम एस सी 000033 जी. पी. (संचयी)	रु. 50,000/-	जे. रेणुका	7.6.1999	जे. रेणुका	02 दिनांक 3.5.2005

1	2	3	4	5	6
कोलकाता सर्कल 10% रिलीफ बॉन्ड, 1995					
सी ए 2152 (जीपीएच)	रु. 1,00,000/- (एक लाख रु. केवल)	(1) भास्कर चक्रवर्ती (2) रत्ना चक्रवर्ती	(1) भास्कर चक्रवर्ती (2) रत्ना चक्रवर्ती	फाइल सं. आई 2557 महा प्रबंधक के आदेश दिनांक 11.07.2005 (डायरी संख्या) एल.सी.ओ. 4/2005-2006 दिनांक 13.07.2005	

जे. एम. बावा, सहायक प्रबन्धक

शुद्धि पत्र

पत्र संख्या सबैलेवि. सीडीडी. 14.02.000/--/2005-06 दिनांक--सितम्बर 2005 का अनुबध राजपत्र सं. 28 दिनांक 9 से 15 जुलाई 2005 के हिन्दी भाष्य के संबंध में शुद्धिपत्र

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	राजपत्र में छपे गए अनुसार	निम्नानुसार पढ़ा जाए
1819	19	एस एस 5249	एम एस 5249

प. लोगनाथन, सहायक महाप्रबंधक

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 22 सितम्बर 2005

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं. 25-सी. ए. (51)/2000--चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबंधनानुसार, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद् द्वारा श्री सुशील चगन्द, एफ. सी. ए. (सदस्यता संख्या 13815), चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 2 एफ/1, डबल स्टोरी बिल्डिंग, अपोजिट बॉयज गवर्नमेन्ट हायर सेकेंडरी स्कूल, एन. आई. टी., फरीदाबाद, हरियाणा को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के खण्ड (11) के अधीन वृत्तिक/व्यावसायिक अवचार का दोषी पाया गया है। तत्पश्चात् इन्स्टीट्यूट की परिषद् ने, उपरोक्त अवचार की बाबत उक्त श्री सुशील चन्द को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम सदस्यों के रजिस्टर से तीन माह की कालावधि के लिए काट/हटा दिया जाए। उक्त आदेश के अनुसरण में, एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री सुशील चन्द (सदस्यता संख्या 13815) का नाम तारीख 15 अक्टूबर, 2005 से तीन माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से काट/हटा दिया जाएगा।

टी. कार्तिकेयन, निदेशक

सं. 25-सी. ए. (53)/97--चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबंधनानुसार, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद् द्वारा श्री सी. एस. राजीव (सदस्यता संख्या 29337), चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, चम्पाकनालूर हाउस, मंगनग पोस्ट, कोट्टायम-686018 को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के खण्ड (11) के अधीन वृत्तिक/व्यावसायिक अवचार का दोषी पाया गया है। तत्पश्चात् इन्स्टीट्यूट की परिषद् ने, उपरोक्त अवचार की बाबत उक्त श्री सी. एस. राजीव को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम सदस्यों के रजिस्टर से तीन माह की कालावधि के लिए काट/हटा दिया जाए। उक्त आदेश के अनुसरण में, एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री सी. एस. राजीव (सदस्यता संख्या 29337) का नाम तारीख 15 अक्टूबर, 2005 से तीन माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से काट/हटा दिया जाएगा।

टी. कार्तिकेयन, निदेशक

सं. 25-सी. ए. (41)/97--चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबंधानुसार, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद् द्वारा श्री जे. पी. चतुर्वेदी, एफ. सी. ए. (सदस्यता संख्या 31373), चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 401, राजशिला, फोर्थ फ्लोर, 697, जे. एस. एस. रोड गिरगाँव, नियर प्रिसेस स्ट्रीट, गुम्नाई--400 002 को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के खण्ड (4) और (11) के अधीन वृत्तिक/व्यावसायिक अवचार का दोषी पाया गया है। तत्पश्चात् इन्स्टीट्यूट की परिषद् ने, उपरोक्त अवचार की बाबत उक्त श्री जे. पी. चतुर्वेदी, को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम सदस्यों के रजिस्टर से छह माह की कालावधि के लिए काट/हटा दिया जाए। उक्त आदेश के अनुसरण में, एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री जे. पी. चतुर्वेदी, (सदस्यता संख्या 31373) का नाम तारीख 15 अक्टूबर, 2005 से छह माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से काट/हटा दिया जाएगा।

टी. कार्तिकेयन, निदेशक

न्यासी, भारतीय खाद्य निगम

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 सितम्बर 2005

भारतीय खाद्य निगम (संसद के अधिनियम के तहत स्थापित) अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट,
16-20, बाराखम्बा लेन, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001।

सं. सी. पी. एफ. V/21 (3)/2003--भारतीय खाद्य निगम अंशदायी भविष्य निधि विनियम, 1967 के विनियम 5 में निहित प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष सहप्रबंध निदेशक निम्नलिखित अधिकारियों को निगम के अंशदायी भविष्य निधि कोष के कार्यों की व्यवस्था के लिए अधिसूचना जारी होने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए न्यासी बोर्ड में प्रतिनिधि के रूप में सहर्ष नामित करते हैं:--

क्र. सं.	नाम तथा पदनाम	कार्यालय जहां कार्यरत हैं
सर्वश्री		
1.	एम. एल. नागपाल, महाप्रबंधक (नीति एवं औ. सं.)	भा. खा. नि., मुख्यालय, नई दिल्ली
2.	जे. एस. तुली, स. प्र. (इंजी.)	भा. खा. नि., मुख्यालय, नई दिल्ली
3.	एन. सुन्दराराजन, स. प्र. (गु. नि.)	आंचलिक कार्यालय (दक्षिण), चेन्नई
4.	आर. एस. नायक, सहायक श्रेणी-1 (डिपो)	आंचलिक कार्यालय (पश्चिम), मुम्बई
5.	विनोद कुमार, सहायक प्रबंधक (डिपो)	भा. खा. नि., मुख्यालय, नई दिल्ली
6.	आर. के. नय्यर, सहायक प्रबंधक (लेखा)	आंचलिक कार्यालय (उत्तर), नोएडा
7.	रवि नारायण दास	भा. खा. नि., वर्कर्स यूनियन, कोलकाता
8.	पी. के. नायक	भा. खा. नि., वर्कर्स यूनियन, कोलकाता
9.	श्रवण पासवान	खाद्य भण्डारण डिपो, नरैला

ए. डी. कालरा, सचिव, भा. खा. नि., अंशदायी भविष्य
निधि न्यासी बोर्ड

RESERVE BANK OF INDIA
(DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS)
CENTRAL DEBT DIVISION
Mumbai, the 10th September 2005

In pursuance of Rule 18 of the Public Debt Rules, 1946 made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 [as amended under the Notification No. F(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in Extra Ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990], the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended July 2005 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai-400008.

The list has been divided into two parts, List "A" being securities now advertised for the first time and List "B" being the list of securities previously advertised.

List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
BYCULLA, MUMBAI CIRCLE					
9% Relief Bonds, 1987					
B.C. 9359 (G.P.A.)	Rs. 50,000/-	Vishindas S. Vazirani (Deceased) and Kamli V. Vazirani	13.02.1990	Vishindas S. Vazirani (Deceased) and Kamli V. Vazirani	06.25.60 10.06.2002
B.C. 9360 (G.P.A.)	Rs. 50,000/-	Vishindas S. Vazirani (Deceased) and Kamli V. Vazirani	13.02.1990	Vishindas S. Vazirani (Deceased) and Kamli V. Vazirani	06.25.60 10.06.2002
B.C. 9361 (G.P.A.)	Rs. 50,000/-	Indu R. Vazirani and Kamli V. Vazirani	13.02.1990	Indu R. Vazirani and Kamli V. Vazirani	06.25.60 10.06.2002
B.C. 9362 (G.P.A.)	Rs. 50,000/-	Indu R. Vazirani and Kamli V. Vazirani	13.02.1990	Indu R. Vazirani and Kamli V. Vazirani	06.25.60 10.06.2002

CHENNAI CIRCLE

9% Relief Bond, 1999 (Demat)

MSN 002407	Rs. 10,00,000/-	Ilavarasi Devadass	Non-Cumulative	Ilavarasi Devadass	02-30 July 2005
------------	-----------------	--------------------	----------------	--------------------	-----------------

List "B"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
CHENNAI CIRCLE					
10% Relief Bond, 1995					
MS 5249 GP (CUM)	Rs. 6,00,000/-	J. Renuka	21.10.1998	J. Renuka	02 dated 3 May 2005
9% Relief Bonds, 1999					
MS 000031 GP (CUM)	Rs. 50,000/-	J. Renuka	07.06.1999	J. Renuka	02 dated 3 May 2005
MSC 000032 GP (CUM)	Rs. 50,000/-	J. Renuka	07.06.1999	J. Renuka	02 dated 3 May 2005

1	2	3	4	5	6
MSC 000033 GP (CUM)	Rs. 50,000/-	J. Renuka	07.06.1999	J. Renuka	02 dated 3 May 2005
			KOLKATA CIRCLE 10% Relief Bond 1995		
CA 2152 (GPH)	Rs. 1,00,000/- (Rupees One lakh only)	(1) Bhaskar Chakravarty (2) Ratna Chakravarty		(1) Bhaskar Chakravarty (2) Ratna Chakravarty	File No. I-2557 G.M.'s Order dated 11.07.2005 (Dy. No.) L.C.O. 4/2005- 06 dated 13.07.2005
					J.M. BAVA, Asstt. Manager

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 22nd September 2005

(Chartered Accountants)

No. 25-CA (51)/2000.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that Shri Sushil Chand, F.C.A., (Membership No. 13815) Chartered Accountant, 2F/1, Double Storey Building, Opp. Boys Government Higher Secondary School, N.I.T., Faridabad, Haryana has been found guilty, by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct under Clause (11) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. Thereafter, in respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21 (4) of the said Act to the said Shri Sushil Chand has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of three months. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said Shri Sushil Chand (Membership No. 13815) shall stand removed from the register of Members for a period of three months with effect from 15th October, 2005.

T. KARTHIKEYAN, Director

No. 25-CA (53)/97.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that Shri C. S. Rajeev, (Membership No. 29337) Chartered Accountant, Chempakanalloor House, Manganam Post, Kottayam-686 018 has been found guilty, by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct under Clause (11) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. Thereafter, in respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21 (4) of the said Act to the said Shri C. S. Rajeev has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of three months. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said Shri C. S. Rajeev (Membership No. 29337) shall stand removed from the register of Members for a period of three months with effect from 15th October, 2005

T. KARTHIKEYAN, Director

No. 25-CA (41)/97.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that Shri J. P. Chaturvedi, F. C. A., (Membership No. 31373) Chartered Accountant, 401, Rajshila, 4th Floor, 697 J.S.S. Road, Girgaun, Near Princess Street, Mumbai—400 002 has been found guilty, by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct under Clauses (4) and (11) of Part-I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. Thereafter, in respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21 (4) of the said Act to the said Shri J. P. Chaturvedi has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of Six months. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said Shri J. P. Chaturvedi (Membership No. 31373) shall stand removed from the register of Members for a period of Six months with effect from 15th October, 2005.

T. KARTHIKEYAN, Director

TRUSTEES, FOOD CORPORATION OF INDIA

New Delhi-110001, the 15th September 2005

The Food Corporation of India (Established under an Act of Parliament) Contributory Provident Fund Trust, 16-20, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001.

No. CPF. V/21 (3)/2003.—In accordance of the Provisions contained in Regulation 5 of the Food Corporation of India Contributory Provident Fund Regulation 1967, the Chairman cum Managing Director pleased to nominate the following representatives to the Board of Trustees to administer the Corporation's Contributory Provident Fund for a period of two years with effect from the date of issue of notification.

S. No.	Name & Designation	Office where working
	S/Shri	
1.	M. L. Nagpal, GM (P&IR)	FCI, Hqrs., New Delhi
2.	J. S. Tuli, AM (Engg.)	FCI: Hqrs. New Delhi
3.	N. Sundrarajan, AM (QC)	ZO (South) Chennai
4.	R. S. Nayak, AG. I (D)	ZO (West), Mumbai
5.	Vinod Kumar, AM (D)	FCI, Hqrs. New Delhi
6.	R. K. Nayyar, AM (A/cs)	ZO (North) Noida
7.	Ravi Narain Dass	FCI Workers Union Kolkata.
8.	P. K. Nayak,	FCI Workers Union Kolkata.
9.	Sharwan Paswan	FSD Narela.

A.D. KALRA, Secy. FCI, CPF Board of Trustees